



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 131] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1982/चैत्र 10, 1904
No. 131] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1982/CHAITRA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate pagging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1982

का.आ. 233(अ).—केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
(1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा
आयातित सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1978 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती
है, अर्थात् :—

- (1) यह आदेश आयातित सीमेंट नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) आदेश,
1982 कहलायेगा।

(2) यह 1 अप्रैल, 1982 से लागू हो जाएगा ।

2. आयातित सीमेंट नियन्त्रण आदेश, 1978 की धारा 6 में 642.84 अंक के स्थान पर 640.57 अंक प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

[फा. सं. 1-9/82-सीमेंट]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1982

S.O. 233(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Imported Cement Control Order, 1978 namely :—

(i) This Order may be called the Imported Cement Control (Second Amendment) Order, 1982.

(ii) It shall come into force with effect from the 1st April, 1982.

2. In clause 6 of the Imported Cement Control Order, 1978 for the figure "642.84" the figure "640.57" shall be substituted.

[File No. 1-9/82-CEM]

C. K. MODI, Jt. Secy.